




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 212] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 1976/कार्तिक 20, 1898
No. 212] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 1976/KARTIKA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 11th November 1976

No. DRAWBACK/PN-70/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/11.No.602/2/70-D18K published in the Gazette of India-Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

For sub-serial No. 1103 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
1103	Alumina Ferrie	Rs. 30/- (Rupees Thirty only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 26th Day of October, 1975 and shall remain in force till 15-6-1976.

राजस्व और बंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1976

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-70/76.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र-असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित भारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 1103 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

उप-क्रमांक संख्या	भाल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1103	एल्यूमिनिआ केरी	30 00 रु० (केवल तीस रुपए) प्रति मीट्रिक टन।

यह सार्वजनिक सूचना अक्टूबर, 1975 के 26वें दिन से लागू हुई मानी जायगी और 15-6-1976 तक लागू रहेगी।

No. DRAWBACK/PN-71/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No.602/2/70-DEK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For item (i) and (ii) of sub-serial No. 5004 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl. No. 1	Description of goods	Rate of drawback
5004 (i)	Bicycle complete not otherwise specified assembled or unassembled including accessories.	13% (Thirteen per cent only) of the f.o.b. value subject to a maximum of Rs. 27.00 (Rupees twenty seven only) per bicycle.
(ii)	Components, spare parts and accessories of bicycles other than bicycle spokes, nipples, washers, chains, rim liners, saddle covers (made of leather), rubber portion of pedals, tools and tool boxes, cycle pumps, tyres and tubes, tube valves and free wheels.	13% (Thirteen per cent only) of the f.o.b. value.

सं. प्रतिप्रदायगी/पी० एन०-71/76.—सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली; 1971 (भारत के राजपत्र-अमाधारण, दिनांक 25 अगस्त; 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० क्र०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित मंशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 5004 की मद (i) तथा (ii) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

उप-क्रम संख्या	माल का विवरण	प्रति प्रदायगी की दर
5004	(i) अन्यथा अविनिदिष्ट सम्पूर्ण बाइसिकल, चाहे वे संयोजित हों अथवा असंयोजित, जिसमें उपांग भी शामिल हैं।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 13 प्रतिशत (केवल तेरह प्रतिशत) परन्तु अतः यज्ञ है कि अधिकतम 27.00 रु० (केवल सत्तरह रूपए) प्रति बाइसिकल हो।
	(ii) बाइसिकल स्पोर्ट्स, निपलों, वाशरों, चेनों, रिम साइजरों गद्दी के कवरों, (जन्हें से बने) पैडलो का रबड़ का भाग, ओजार तथा ओजार के बक्सों, साइकिल-पम्पो, टायर तथा ट्यूबों, ट्यूब बाल्व और फ्री व्हीलों से भिन्न बाइसिकल के संघटक, फालतू पुर्जें तथा उपांग।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 13 प्रतिशत (केवल तेरह प्रतिशत)।

सी० डी० रमाचारी, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

